

November 15, 2024

BSE Ltd. P J Towers, Dalal Street, FortMumbai – 400001 Scrip Code: 543272	National Stock Exchange of India Limited (NSE). Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400051 Symbol: EASEMYTRIP
---	---

Subject: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”)

Dear Sir/Madam,

Pursuant to provisions of Regulation 47 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the newspaper clippings regarding publication of the unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2024, published in Financial Express (English) and Jan Satta (Hindi) on November 15, 2024 are enclosed.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

For Easy Trip Planners Limited

Priyanka Tiwari
Group Company Secretary and Chief Compliance Officer
Membership No.: A50412

Easy Trip Planners Ltd.

Registered office : Building No. - 223, Patparganj Industrial Area, New Delhi - 110092 (India)

Phone : +91 - 11 43030303, 43131313 | E-mail : Care@easemytrip.com | Web: www.EaseMyTrip.com | CIN No. L63090DL2008PLC179041



PILOT PROJECT

E-comm export: Shiprocket, cargo firm to run hubs

MUKESH JAGOTA
New Delhi, November 14

LOGISTICS ENABLER FOR e-commerce Shiprocket and air cargo handling company Cargo Service Centre (CSC) have been selected by the government to run pilots on setting up e-commerce export hubs in the country, a senior official said on Thursday.

The hubs will be set up in and around Delhi airport and will be rolled out in February next year, director general of foreign trade Santosh Kumar Sarangi told reporters. While Shiprocket is headquartered in Gurugram, CSC is based in Mumbai.

"The hub will have facilities for expedited customs and security clearance in house. Provision for quality and certifying agency will happen with the hub. It will also have a very easy reimport policy," he added. Reimport policy will enable the return of e-commerce consignments and rejects without payment of import duty.

Based on the feedback received on running of these pilots, the government will come out with detailed guidelines for setting up more such hubs across the country. The guidelines may require policy or regulatory tweaks in different departments, Bureau of Civil Aviation Security (BACS) and DGFT.

"Our expectation is that the successful rollout of the pilot and subsequent scaling up will have a large number of ECEH (e-commerce export hubs) operating in different parts of the country," Sarangi said.

Heside e-commerce exports have the potential to grow to \$100 billion-plus by 2030 and then further to \$200-250 billion. Global e-commerce exports are expected to touch \$2 trillion in 2030 from \$800 billion now. India's exports through this medium is only

about \$5 billion as compared to China's \$250 billion annually. China, which is a leader in e-commerce exports, is also a pioneer in export hubs for e-commerce. China's exports through this route were 6.4% of its total merchandise exports in 2023, while for India this figure stood at \$1.14%. "This (ECEH) will be a key element in furthering our exports," Sarangi said.

भारतीय खाद्य निगम **FOOD CORPORATION OF INDIA**
16-20, Barakhamba Lane, New Delhi-110001
16-20, बाराखंबा लेन, नई दिल्ली-110001

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th September, 2024
30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही हेतु गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

For detailed financial result please scan the QR Code or visit FCI/NSE Website.
विरस्तुत वित्तीय परिणाम के लिए कृपया क्यूआर कोड स्कैन करें या एफसीआई/एनएसई वेबसाइट पर जाएं।

राष्ट्र के खाद्य सुरक्षा प्रहरी

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
Together We Can
H.O.: 112, J C Road, Bengaluru-560 002 www.canarabank.com

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE BANK. ELECTION OF ONE SHAREHOLDER DIRECTOR. LIST OF VALID CANDIDATES.

Further to Newspaper Publication dated 27th September, 2024 on the captioned subject and Notice dated 28th October, 2024 published in newspapers convening the Extraordinary General Meeting of the Bank for Election of One Director of the Bank amongst shareholders other than the Central Government, the Bank received the nominations from the following candidates which are found to be valid and also "Fit and Proper" by the Nomination & Remuneration Committee of the Board.

Name of the Candidate	Date of Birth & Age (Years)	Educational Qualification	Special Knowledge / Experience
Shri. Hemant Buch	30.12.1966 57 Years	B.Com (Hons)	Finance
Shri. Deepak Arora	30.09.1974 50 Years	B.Com, LLB, Company Secretary, Insolvency Professional	Law

Accordingly, election of one shareholder director will be held at the Extraordinary General Meeting of the Bank scheduled on 27th November, 2024 through VC/OAVM. Candidate desiring to withdraw his nomination can intimate to Bank by 5.00 pm on 21st November, 2024. Further, Remote e-voting on the agenda item as mentioned in EGM notice will take place from 9.00 am on Saturday, 23rd November, 2024 till 5.00 pm on Tuesday, 26th November, 2024. E-voting will also be conducted during the Extraordinary General Meeting scheduled on 27th November, 2024.

Place : Bengaluru
Date : 14.11.2024

Company Secretary
Canara Bank

EaseMyTrip .com
Bharat ka Travel App

Easy Trip Planners Limited
Registered Office: Building No. - 223, Patparganj Industrial Area, New Delhi - 110092 (India)
Email us: Care@easemytrip.com
Call us: 011 - 43131313, 43030303

₹ 1,499.45 Million
₹ 372.42 Million
₹ 267.96 Million
₹ 0.15

Total Income | Profit Before Tax | Profit After Tax | Earnings Per Share

(Figures in INR million)

Particulars	Quarter Ended 30.09.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Six Months Period Ended 30.09.2024 (Unaudited)	Six Months Period Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
Total income	1499.45	1,562.19	1,445.68	3061.64	2,712.13	6,090.81
Net Profit / (Loss) for the period before tax	372.42	471.81	646.50	844.23	997.32	2150.63*
Net Profit / (Loss) for the period after tax	267.96	339.29	469.55	607.25	728.60	1576.67*
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	293.40	340.25	473.99	633.65	727.11	1,031.70
Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs.1/- each)	1,772.04	1,772.04	1,772.04	1,772.04	1,772.04	1,772.04*
Earnings per equity share (face value Rs.1/- per equity share) (not annualised for quarters) Basic & Diluted	0.15	0.19	0.27	0.34	0.42	0.58

*Restated before other comprehensive income, non-controlling interest and exceptional items.
Note: The above is an extract of the detailed format of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended September 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended September 30, 2024 are available on the Stock Exchange websites, (www.bseindia.com / www.nseindia.com) and Company's website www.easemytrip.com

Place : New Delhi
Date : November 14, 2024

By Order of the Board
For Easy Trip Planners Limited
Name: Priyanka Tiwari
Designation: Group Company Secretary and Chief Compliance Officer
Membership No.: A50412

Over 25 Million+ Happy Customers

*T&C Apply

Muthoot Finance

1 LAKH CRORE

CONSOLIDATED LOAN AUM SURPASSED

A big thank you to all our customers, partners & stakeholders for your continued support

Extract of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results For The Half Year Ended September 30, 2024.

PARTICULARS	STANDALONE			CONSOLIDATED		
	H1 FY 2025	H1 FY 2024	% Increase	H1 FY 2025	H1 FY 2024	% Increase
Total Revenue (₹)	7,836	6,100	28%	9,450	7,141	32%
Profit Before Tax (₹)	3,200	2,645	21%	3,447	2,877	20%
Profit After Tax (₹)	2,330	1,966	18%	2,517	2,140	18%
Net Worth (₹)	25,684	22,181	16%	26,616	22,883	16%
Earnings Per Share (₹ 10/- each) (Basic) (₹)	58.03	48.98	18%	60.67	51.85	17%
Book Value Per Share (₹)	639.67	552.41	16%	662.82	569.99	16%
Capital Adequacy Ratio (%)	29.96	30.31	-	-	-	-

Note: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Half-Yearly Financial Results and is not a statutory advertisement required under SEBI guidelines. The detailed financials and investor presentation is available on the website of the Company at www.muthootfinance.com

INDIA'S #1 MOST TRUSTED FINANCIAL SERVICES BRAND 2024
Great Place To Work. Certified (JAN 2024 - JAN 2025) INDIA
EXCEPTIONAL NCD ISSUER OF THE YEAR AWARD
Times Business Award 2024

Muthoot Finance Limited: CIN: L65910KL1997PLCO11300; Regd. Office: Muthoot Chambers, Opposite Saritha Theatre Complex, Banerji Road, Ernakulam, Kerala - 682 018, India. Tel: (+91 484) 239 4712, Fax: (+91 484) 239 6506; Email: mails@muthootgroup.com

Muthoot Family - 800 years of Business Legacy
financialexp.eapap.in
New Delhi

दिल्ली सरकार का फैसला

येलो लाइन पर 14-19 तक मेट्रो सेवाएं प्रभावित रहेंगी

प्रदूषण के कारण पांचवीं तक की कक्षाएं आनलाइन चलेंगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 नवंबर।

दिल्ली में पांचवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय शहर में बढ़ते प्रदूषण स्तर के मद्देनजर अगले निर्देश तक आनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे। मुख्यमंत्री आतिथी ने गुरुवार को यह बात कही। प्रदूषण के चिंताजनक स्तर पर पहुंचने के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्व्यूएम) ने गुरुवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रैप चरण-3 के तहत पाठ्यपुस्तकें लागू कीं। राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता गुरुवार लगातार दूसरे दिन 'गंभीर' श्रेणी में रही, जिसके बाद अधिकारियों को सख्त प्रदूषण रोधी उपाय लागू करने पड़े जो शुक्रवार से प्रभाव में आएंगे। शिक्षा विभाग का कामकाज भी

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाले दिनों और और कड़े कदम उठाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को 'ग्रीन वार रूम' में पर्यावरण वैज्ञानिकों के साथ खास बैठक की। बैठक के बाद मंत्री राय ने सभी संबंधित विभागों को दिशा-निर्देशों का सखी से पालन करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि हवा की जो गति है उसमें सुधार होने का अनुमान है जिससे प्रदूषण के स्तर में कमी होने का अनुमान है। मंत्री राय ने कहा कि सर्दियों के मौसम में दिल्ली में पहली बार प्रदूषण का स्तर 400 के पार गया है। इसको गंभीरता से लेते हुए पर्यावरण वैज्ञानिकों के साथ अहम बैठक की गई।

भाजपा ने गोपाल राय का इस्तीफा मांगा

नई दिल्ली, 14 नवंबर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा गुरुवार सुबह राजपथ पर पहुंचे। उन्होंने प्रदूषण का जांचा लेते हुए कहा कि वायु गुणवत्ता स्तर राजपथ जैसे साफ सुथरे क्षेत्र में भी 450 सूचकांक के ऊपर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि गोपाल राय एक असफल मंत्री हैं और दिल्ली वाले उनका इस्तीफा चाहते हैं। दिल्ली वाले फरवरी में तो उनकी पूरी सरकार का ही डब्बा गोल कर देंगे। (जस)

होनासा कंज्यूमर लिमिटेड
CIN: L74999DL2016PLC306016
पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नंबर - 404, चौथी मंजिल,
सिटी सेंटर, प्लॉट नंबर 05, सेक्टर-12, द्वारका, नई दिल्ली - 110075, भारत
वेबसाइट: www.honasa.in; ईमेल: compliance@mamaearth.in; टेलीफोन: 011-44123544
30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
		30 सितम्बर, 2024	30 जून, 2024	30 सितम्बर, 2023	30 सितम्बर, 2024	30 सितम्बर, 2023	31 मार्च, 2024
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	प्रचालनों से आय	4,618.22	5,540.57	4,961.08	10,158.79	9,605.95	19,199.04
2	कर पूर्व (हानि)/लाभ	(243.72)	523.96	392.05	280.24	731.58	1,471.30
3	कर पश्चात (हानि)/लाभ	(185.75)	402.59	294.38	216.84	541.53	1,105.28
4	कुल व्यापक (हानि)/आय	(187.10)	401.80	297.84	214.70	541.47	1,106.43
5	इन्विटी शेयर पुंजी	3,248.24	3,242.44	1,363.36	3,248.24	1,363.36	3,242.44
6	आरक्षितियां (पुनर्मुल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)	-	-	-	-	-	7,710.27
7	(हानि)/आय प्रति इन्विटी शेयर (₹. 10/- प्रत्येक (वार्षिकीकृत नहीं))	(0.57)	1.24	0.96	0.67	1.81	3.57
(क)	बैसिक	(0.57)	1.24	0.96	0.67	1.81	3.57
(ख)	डाइल्यूटेड	(0.57)	1.24	0.93	0.67	1.76	3.55

नोट:
(क) उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.nseindia.com और www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.honasa.in पर उपलब्ध है।
(ख) स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों पर अतिरिक्त जानकारी निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
		30 सितम्बर, 2024	30 जून, 2024	30 सितम्बर, 2023	30 सितम्बर, 2024	30 सितम्बर, 2023	31 मार्च, 2024
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	प्रचालनों से राजस्व	4,174.84	4,983.95	4,601.93	9,158.79	8,863.30	17,643.89
2	कर पूर्व लाभ/(हानि)	(210.79)	466.08	475.69	255.29	843.67	1,582.79
3	कर पश्चात लाभ/(हानि)	(149.22)	347.86	377.36	198.64	653.41	1,209.66

होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से
वरुण अलघ
अध्यक्ष, पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ
डीआईएन: 07597289
गुरुग्राम
14 नवम्बर, 2024

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 नवंबर।

राष्ट्रीय राजधानी के जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम तक 490 मीटर लंबे खंड पर सिविल कार्य के कारण येलो लाइन पर मेट्रो सेवाएं 14 नवंबर की रात से 19 नवंबर तक अस्थायी रूप से प्रभावित रहेंगी। डीएमआरसी के अनुसार, जनकपुरी पश्चिम और आरके आश्रम के बीच 490 मीटर लंबे खंड पर नियोजित निर्माण कार्य के कारण यह व्यवधान उत्पन्न होगा। इसमें कहा गया है कि इस खंड पर मेट्रो सेवाएं 14-15 नवंबर की दरमियानी रात से 19-20 नवंबर की दरमियानी रात तक कुछ समय के लिए प्रभावित रहेंगी। परिणामस्वरूप, समयपुर बावली और जहांगीरपुरी के बीच रात 10:45 बजे के बाद सुबह 7:02 बजे सेवाएं शुरू होने तक कोई ट्रेन सेवा नहीं होगी।

प्रदूषण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई 18 को नई दिल्ली, 14 नवंबर (यूरो)।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों को लागू करने का अनुरोध करने संबंधी याचिका को 18 नवंबर के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने पर गुरुवार को सहमति व्यक्त की। याचिका में शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया है कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर न बन जाए, इसलिए याचिका को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए।

CHANAKYA PURI
5BHK Apartment
For Sale
Very Well Kept, Good Location
MANY MORE OPTIONS
FOR ANY SALE PLEASE CONTACT
RAHUL SHARMA 999-999-6796

टेलीकम्युनिकेशन्स कमलटेंड्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)
(आरटि एक्ट का उद्योग)
टीसीआईएल अवन, ग्रेट कैलाश-1, नई दिल्ली-110048
टीसीआईएल विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए प्रबंधक (ई-3 वेतनमान)/सहायक महाप्रबंधक (ई-4 वेतनमान)/उप महाप्रबंधक (ई-5 वेतनमान)/संयुक्त महाप्रबंधक (ई-6 वेतनमान)/महाप्रबंधक (ई-7 वेतनमान)/मुख्य महाप्रबंधक (ई-8 वेतनमान) में नियमित/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर आवेदन आमंत्रित करता है।
विस्तृत जानकारी के लिए कृपया टीसीआईएल की वेबसाइट देखें: <https://www.tcil.net.in/index.php>
आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 05.12.2024 है।

मेट्रो लगाएगी 20 अतिरिक्त फेरे दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार से ग्रैप-3 कार्यान्वयन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने भी 20 अतिरिक्त फेरे लगाने का निर्णय किया है। अभी तक ग्रैप 2 के लागू होने के बाद से पहले ही कार्यदिवसों में 40 अतिरिक्त फेरे लगा रही है। ग्रैप 3 नियमों के कार्यान्वयन के बाद अब दिल्ली मेट्रो इस चरण के लागू रहने तक कुल 60 अतिरिक्त ट्रिप लगाएगी।

उत्पन्न होगा। इसमें कहा गया है कि इस खंड पर मेट्रो सेवाएं 14-15 नवंबर की दरमियानी रात से 19-20 नवंबर की दरमियानी रात तक कुछ समय के लिए प्रभावित रहेंगी। परिणामस्वरूप, समयपुर बावली और जहांगीरपुरी के बीच रात 10:45 बजे के बाद सुबह 7:02 बजे सेवाएं शुरू होने तक कोई ट्रेन सेवा नहीं होगी।

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking
Together We Can
प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूरु-560 002

बैंक की असाधारण आम बैठक एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव वैध उम्मीदवार की सूची

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 सितंबर 2024 के समाचार पत्र प्रकाशन और केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से बैंक के एक निदेशक के चुनाव के लिए बैंक की असाधारण आम बैठक बुलाने के संबंध में दिनांक 28 अक्टूबर 2024 के समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस के अनुसार, बैंक को निम्नलिखित उम्मीदवारों से नामांकन प्राप्त हुए, जिन्हें बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा वैध और "योग्य एवं उचित" पाया गया है।

उम्मीदवार का नाम	जन्म तिथि और आयु (वर्ष)	शैक्षणिक योग्यता	विशेष ज्ञान/अनुभव
श्री हेमंत बुच	30.12.1966 57 वर्ष	बी.कॉम (ऑनर्स)	वित्त
श्री दीपक अरोड़ा	30.09.1974 50 वर्ष	बी.कॉम, एल.एल.बी., कंपनी सेक्रेटरी, इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल	कानून

तदनुसार, एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव 27 नवंबर 2024 को वीसी/ओपीएम के माध्यम से निर्धारित बैंक की असाधारण आम बैठक में किया जाएगा। अपना नामांकन वापस लेने के इच्छुक उम्मीदवार 21 नवंबर, 2024 को शाम 5 बजे तक बैंक को सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा, ईजीएम नोटिस में उल्लिखित कार्यसूची मद पर दूरस्थ ई-वोटिंग शनिवार, 23 नवंबर, 2024 को सुबह 09.00 बजे से मंगलवार, 26 नवंबर, 2024 को शाम 05.00 बजे तक होगी। 27 नवंबर, 2024 को निर्धारित असाधारण आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग भी आयोजित की जाएगी।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 14.11.2024
कंपनी सचिव
केनरा बैंक

EaseMyTrip.com
Bharat ka Travel App

ईजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: भवन संख्या - 223, एफ.आई.ई., पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली - 110092 (भारत)
हमें ईमेल करें: Care@easemytrip.com
हमें कॉल करें: 011 - 43131313, 43030303

₹ 1,499.45 मिलियन
कुल आय

₹ 372.42 मिलियन
कर देने से पूर्व लाभ

₹ 267.96 मिलियन
कर के बाद लाभ

₹ 0.15
प्रति शेयर आय

(INR यदा लाकों में)

विवरण	30.09.2024 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	30.06.2024 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	30.09.2024 को छह माह की अवधि समाप्त हुई (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 को छह माह की अवधि समाप्त हुई (अलेखापरीक्षित)	31.03.2024 को वर्ष समाप्त (लेखापरीक्षित)
कुल आय	1499.45	1,562.19	1,445.68	3061.64	2,712.13	6,090.81
कर से पहले की अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)	372.42	471.81	646.50	844.23	997.32	2,150.63*
कर के बाद की अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)	267.96	339.29	469.55	607.25	728.60	1,576.67*
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लाभ/हानि (कर शामिल) और अन्य व्यापक आय (कर शामिल)]	293.40	340.25	473.99	633.65	727.11	1,031.70
भुगतान किया हुआ इन्विटी शेयर पुंजी (प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य ₹ 1)	1,772.04	1,772.04	1,772.04	1,772.04	1,772.04	1,772.04*
प्रति इन्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य 1/- प्रति इन्विटी शेयर) (तिमाही के लिए वार्षिक नहीं) मूल और निश्चित	0.15	0.19	0.27	0.34	0.42	0.58

*अन्य व्यापक आय, गैर-नियंत्रित ब्याज और असाधारण वस्तुओं से पहले पुन: स्थापित।
ध्यान दें: उपरोक्त विवरण 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और अर्धवर्ष के समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है, जिसे SEBI (सूचीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किया गया है। 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और अर्धवर्ष के लिए समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइटों (www.bseindia.com / www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट www.easemytrip.com पर उपलब्ध है।

स्थान: दिल्ली
दिनांक: ता.दि. 14 नवंबर, 2024

बोर्ड की आज्ञानुसार
ईजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के लिए
नाम: प्रियंका तिवारी
पद: समूह कंपनी सचिव और मुख्य अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या: A50412

26 मिलियन से अधिक खुश ग्राहक

नियम और शर्तें लागू